

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 फरवरी 2024 — माघ 30, शक 1945

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2024

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-42/2023/वा.क.(आब.)/पांच (31).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) (ड.), (च), (छ) एवं (ज) के उप-खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, “छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995” में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

### संशोधन

1. उक्त नियमों में —

नियम 6 के उपनियम (6) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 6 के उपनियम (6) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्—

“(6) स्पिरिट का आसवनी से ले जाया जाना— “छत्तीसगढ़ के भीतर स्पिरिट को, एक आसवनी से दूसरी आसवनी या आसवनी परिसर के भीतर स्थित देशी/विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाई या आसवनी परिसर के बाहर स्थित देशी/विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाई को मदिरा निर्माण के प्रयोजन से अथवा अन्य किसी इकाई द्वारा, किसी भी प्रयोजन से विहित परिवहन शुल्क के संदाय पर, आबकारी आयुक्त द्वारा विहित बंधपत्र के निष्पादन पर, या ऐसी अन्य रीति से जैसी कि आबकारी आयुक्त विहित करे, ले जाया जायेगा। स्पिरिट का परिवहन टैंकर/पाईप लाईन/ड्रम/कंटेनर/अन्य माध्यम से भी किया जा सकेगा तथा ऐसे स्पिरिट के परिवहन पर परिवहन शुल्क रुपये 1500/— प्रति परेषण देय होगा। यदि ऐसे स्पिरिट का परिवहन पाईप लाईन के माध्यम से किया जाता है, तो ऐसा किये जाने पर परिवहन शुल्क प्रति 20,000 बल्क लीटर या उससे कम मात्रा पर रुपये 1500/— देय होगा।

2. उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.